



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2808]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2013/अग्रहायण 27, 1935

No. 2808]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2013/AGRAHAYANA 27, 1935

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3697 (अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के जिला नवसारी में विशेष रेल परियोजना, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20(घ) की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, उप-कलेक्टर और सक्षम प्राधिकारी नवसारी, उप-कलेक्टर का कार्यालय, नवसारी, पुराना थाना, बहुमंजिला भवन, सी ब्लॉक, प्रथम तल, नवसारी, गुजरात को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 20(घ) की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेल परियोजना पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए गुजरात राज्य के नवसारी जिले की संरचनाओं के साथ या बिना, भूमि अधिग्रहण का संक्षिप्त वर्णन.

क्रम सं. (1)	तालुका का नाम (2)	गांव का नाम (3)	ब्लॉक / सर्वेक्षण संख्या (4)	क्षेत्र हेक्टेयर में (5)
1.	गणदेवी	अमलसाड	172	0.1625
			171	0.0340
			170	0.0302
			169	0.4303
			167	0.2422
			166	0.2362
			165	0.2010
			164	0.8008
			204	0.1945
			205	0.1950
			206	0.3831
			208	0.1430
			207	0.2868
			227	0.3835
			228	0.2839
			229	0.1606
			230	0.7050
			129	0.7150
			128	0.4500
			119/1	0.1240
			119/2	1.3059
			126	0.0821
			123	0.1711
			120	0.0120
			312	0.0808
			16	0.1547
			15	0.1050

			11	0.4567
			14	0.0650
			12	0.1650
			9	0.4095
			6	0.2520
			1	0.8080
			10	0.0184
			121	0.2000
			124	0.0400
			127	0.1000
			सं. 206 और 207 के बीच में सड़क	0.1675
			173	0.0240
			सं. 172 के नजदीक में सड़क	0.0250
		अंचेली	482	0.2000
			266	0.2100
			481	0.0300
			सड़क	0.0540
		भाटा	465	0.0340
			466	0.0300
			467	0.0136
			397	0.0250
		बिल्लीमोरा	222	0.0430
			369/पैकि-1	0.0476
		देसरा	190	0.0663
			191	0.0738
			192/1+193+194/ पैकि-4	0.0300
			192/1+193+194/ पैकि--5	0.0565
			192/1+193+194/ पैकि--6	0.0644
			192/1+193+194/ पैकि--7	0.0226
			393+393/1+395/ब/ पैकि-4	0.0770
			393+393/1+395/ब/पैकि--1	0.0511
			249	0.0100

2.	जलालपोर	देवधा	248	0.0480
			427	0.0360
			425	0.0270
			424	0.0110
			423	0.0050
			420	0.1200
			433	0.0070
			419	0.0238
			369	0.0740
			367	0.0700
			336	0.0100
			335	0.0075
			334	0.0060
			सड़क	0.0025
			206	0.0700
			204	0.1503
			202	0.4043
			201	0.3880
			197	0.3092
			203	0.1351
			200	0.1308
			198	0.1308
			199	0.1784
			195	0.0300
			191	0.0800
			201	0.4638
			190	0.0446
			186	0.2000
			188	0.0444
			187	0.1132
		सारिबुजरंग	703	0.3250
		मरोलि	330	0.1625

			331	0.0400
		तबडि	84	0.0050
			सड़क	0.0223
			1212	0.0686
			1030	0.1772
			1031	0.0887
			1029	0.3800
			1028	0.1258
			1027	0.0810
			1026	0.0082
			961	0.0225
			962	0.0040
			974	0.0140
			975	0.0080
			976	0.0180
			977	0.0200
			979	0.0575
			980	0.0300
			981	0.0090
			982	0.0405
			985	0.0160
			986	0.0290
			987	0.0700
		वेडछा	926	0.0130
			सड़क	0.0600
			1142	0.1120
			1134	0.0662
			1135	0.0420
			1136	0.0220
			1137	0.0330
			1133	0.0203
			1129	0.0627
			1132	0.0348

3.	नवसारी		1131	0.0306
			1130	0.0672
			1128	0.0607
		नवसारी	572	0.2450
			573	0.0600
			583	0.0850
			584	0.0050

[फा. सं. 2013/एलएमएल/II/12/8/ डब्ल्यू सी /432]

ओ. पी. सिंह, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2013

S.O. 3697.— In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land the brief, description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution, maintenance, management and operation of special Railway Project, Western Dedicated Freight Corridor, in the District of Navsari in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub- section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Deputy. Collector and Competent Authority, Navsari, Office of Deputy Collector, Navsari, Old Thana, Multistoried Building, Block No. C, First Floor, Navsari, Gujarat in writing and shall set out the grounds there of and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub- section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land acquired, with or without structures, falling within the proposed special Railway project Western Dedicated Freight Corridor in the District of NAVSARI in the State of Gujarat.

Sr. No.	Name of The Taluka	Name of The Village	Survey Number / Block Number	Area to be Acquired in (ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gandevi	Amalsad	172	0.1625
			171	0.0340

			170	0.0302
			169	0.4303
			167	0.2422
			166	0.2362
			165	0.2010
			164	0.8008
			204	0.1945
			205	0.1950
			206	0.3831
			208	0.1430
			207	0.2868
			227	0.3835
			228	0.2839
			229	0.1606
			230	0.7050
			129	0.7150
			128	0.4500
			119/1	0.1240
			119/2	1.3059
			126	0.0821
			123	0.1711
			120	0.0120
			312	0.0808
			16	0.1547
			15	0.1050
			11	0.4567
			14	0.0650
			12	0.1650
			9	0.4095
			6	0.2520
			1	0.8080

			10	0.0184
			121	0.2000
			124	0.0400
			127	0.1000
			Road bet. S/. No. 206 & 207	0.1675
			173	0.0240
			Road near S/. No. 172	0.0250
		Ancheli	482	0.2000
			266	0.2100
			481	0.0300
			Road	0.0540
		Bhatha	465	0.0340
			466	0.0300
			467	0.0136
			397	0.0250
		Billimora	222	0.0430
			369/P-1	0.0476
		Desra	190	0.0663
			191	0.0738
			192/1+193+194/P-4	0.0300
			192/1+193+194/P-5	0.0565
			192/1+193+194/P-6	0.0644
			192/1+193+194/P-7	0.0226
			393+393/1+395/B/P-4	0.0770
			393+393/1+395/B/P-1	0.0511
		Devdha	249	0.0100
			248	0.0480
			427	0.0360
			425	0.0270
			424	0.0110

			423	0.0050
			420	0.1200
			433	0.0070
			419	0.0238
			369	0.0740
			367	0.0700
			336	0.0100
			335	0.0075
			334	0.0060
			Road	0.0025
			206	0.0700
			204	0.1503
			202	0.4043
			201	0.3880
			197	0.3092
			203	0.1351
			200	0.1308
			198	0.1308
			199	0.1784
			195	0.0300
			191	0.0800
			201	0.4638
			190	0.0446
			186	0.2000
			188	0.0444
		Saribujrang	187	0.1132
			703	0.3250
2	Jalalpore	Maroli	330	0.1625
			331	0.0400
		Tavdi	84	0.0050

			Road	0.0223
			1212	0.0686
			1030	0.1772
			1031	0.0887
			1029	0.3800
			1028	0.1258
			1027	0.0810
			1026	0.0082
			961	0.0225
			962	0.0040
			974	0.0140
			975	0.0080
			976	0.0180
			977	0.0200
			979	0.0575
			980	0.0300
			981	0.0090
			982	0.0405
			985	0.0160
			986	0.0290
			987	0.0700
		Vedchha	926	0.0130
			Road	0.0600
			1142	0.1120
			1134	0.0662
			1135	0.0420
			1136	0.0220
			1137	0.0330
			1133	0.0203
			1129	0.0627
			1132	0.0348

			1131	0.0306
			1130	0.0672
			1128	0.0607
3	Navsari(Rural)	Navsari	572	0.2450
			573	0.0600
			583	0.0850
			584	0.0050

[F. No. 2013/LML/II/12/8/WC/ 432]

O. P. SINGH, Executive Director (Land and Amenities-I)